

A foreign hand to help clean the Yamuna

St Peter's College on Monday hosted a workshop on water pollution in Agr...

The World Water Day on March 22 is to be marked by concerned citizens at cleaning...

ble harm to the other ecosystems. Subhojy Dutta, pro...



Workshop on water pollution being held at St Peter's College by Yamuna Foundation for Blue Water.

ASH REPLACED BY BEAUTY QUEEN
Akhayra for the nation, who had been reported to be in the line...

GET A FACILITY BANK SUBSIDY
BSP will be M.C. election with huge margin - page 2



Workshop on water pollution being held at St Peter's College by Yamuna Foundation for Blue Water.

Photo from Hindustan Times Article: Left to Right: Subjoy Dutta (Rivers of the World Foundation), Ginny Harris (Alice Ferguson Foundation), Dick Lahn (String of Pearls), Father John Ferreira (St. Peter's College), Ramakrishna Koduri (Rivers of the World Foundation).

आगरा तेरी यमुना मैली रह गई

- एनआरआई यमुना के प्रति चला रहे जागरूकता अभियान
तीन साल से कर रहे हैं मिटी को लोगों को अवेयर



यमुना नदी में गिरता गंगा नाला.

फरंट केज के तहत करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। दिल्लील फरंट से प्लान के तहत मार्च 2010 तक 21.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं...

AGRA (13 Jan.): यमुना नदी के नाम पर क्या-क्या नहीं हुआ. अकेलेसे प्रोग्राम चलाने पर, यमुना एकता प्लान के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए...

जस्ती है जागृति
दूसरी ओर रिसर्स ऑफ द वर्ल्ड फरवर्डेशन से जुड़े एनआरआई और एंजेलोस्टेन ईंजीनियर सिमिओने दका यमुना नदी को साफ कर सके मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामांकित...

फरंट केज के तहत करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। दिल्लील फरंट से प्लान के तहत मार्च 2010 तक 21.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं...



यमुना नदी में गिरता गंगा नाला.



कार्यशाळा को संबोधित करतीं रिसर्चर सिमिओने दिका.

मतिष्य के साइंटिस्ट साफ करेंगे यमुना

दिल्ली और मयूर के इंस्टीट्यूट रहीं यमुना का गंगा

AGRA (13 Jan.): मतिष्य के साइंटिस्ट्स ने यमुना नदी को पॉल्यूट कर रहे लोगों को अवेयर करने का बीड़ा उठाया है...



यमुना नदी में गिरता गंगा नाला.

अपने को साबित करना होगा विद्युत कर्मचारियों को स्टेशनों पर अब मा
जागरूकता से बचेगी यमुना
आगरा, अग्रवा पर दो दिन के कार्यक्रम का समापन...

TIMES NATION
Yamuna filthy above bathing limit: Report.
Yamuna now a river of human waste
Excreta Level 100 Times Above Safe Bathing Level: CPCB Report
The alarming rise in the fecal coliform content of the Yamuna by the time it reaches Nizamuddin...



SPOT THE YAMUNA